

प्रथम 10 मिनट में अभ्यर्थी अपनी प्रश्न-पुस्तिका के क्रमांक का मिलान ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक के क्रमांक से अवश्य कर लें। यदि ओ० एम० आर० उत्तर पत्रक व प्रश्न-पुस्तिका के क्रमांक भिन्न हैं तो केन्द्र अधीक्षक से निवेदन करके प्रश्न-पुस्तिका बदल लें।

Level : 3
PGT : For Lecturer

Exam. – 2022
ECONOMICS

Sub. Code No. : 908

प्रश्न-पुस्तिका क्रमांक एवं ओ०एम०आर० क्रमांक
Question-Booklet Serial No. & O. M. R. Serial No.

अनुक्रमांक (अंकों में) :

SET : A

Roll No. (In Figures)

अनुक्रमांक (शब्दों में) : _____

Roll No. (In Words)

परीक्षा केन्द्र का नाम : _____

Name of Examination Centre

अभ्यर्थी का नाम : _____

Name of Candidate

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर : _____

Signature of Candidate

| | | | | | |
|---|----|--|-----|-------------|----------|
| इस प्रश्न-पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या No. of Pages in this Question Booklet | 48 | प्रश्नों की संख्या No. of Questions | 150 | समय Time | 2½ hours |
|---|----|--|-----|-------------|----------|

निरीक्षक के हस्ताक्षर (Signature of Invigilator) : _____

अभ्यर्थी को 10 मिनट का समय प्रश्न-पुस्तिका पर छपे निर्देशों को पढ़ने तथा उत्तर पत्रक में अपने विवरण भरने के लिए दिया जाएगा। यदि प्रश्न-पुस्तिका व उत्तर पत्रक की क्रम संख्या गलत अंकित हों तो तुरन्त केन्द्र अधीक्षक से निवेदन करके प्रश्न-पुस्तिका बदल लें। इसके पश्चात् कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन 10 मिनटों के अतिरिक्त, प्रश्नों के उत्तर अंकित करने के लिए पूरे 2½ घंटे का समय दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न-पुस्तिका में दिए गए किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि होने का संदेह हो तो इसके लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त प्रतिवेदन देने के लिए अवसर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित अवसर के दौरान इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन बोर्ड कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं। इस अवसर के बाद, इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

यदि किसी प्रश्न में हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम में भिन्नता है तो अंग्रेजी माध्यम का प्रश्न ठीक माना जाएगा।

If there is any variance between Hindi and English Version of any question then English Version would be considered correct.

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

- ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक इस प्रश्न-पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको प्रश्न-पुस्तिका पढ़ने को कहा जाए, तो उत्तर पत्रक निकाल कर ध्यान से केवल काले बॉल प्वाइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 2½ घंटे है एवं प्रश्न-पुस्तिका में 150 प्रश्न हैं। कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है।
- अपने विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्रक पर निशान लगाने के लिए केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। अभ्यर्थी प्रश्न-पुस्तिका का उपयोग करने एवं उत्तर पत्रक को भरने में सावधानी बरतें।
- प्रथम 10 मिनट में, यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पुस्तिका क्रमांक और उत्तर पत्रक क्रमांक एक ही हैं। अगर यह भिन्न हों तो अभ्यर्थी दूसरी प्रश्न-पुस्तिका और उत्तर पत्रक लेने के लिए पर्यवेक्षक को तुरन्त अवगत करवाएं।

INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATES

- The OMR Answer Sheet is inside this Question Booklet. When you are directed to read the Question Booklet, take out the OMR Answer Sheet and fill in the particulars carefully with black ball point pen only.
- The test is of two-and-half hours duration and consists of 150 questions. There is no negative marking.
- Use Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/darkening responses in the Answer Sheet. The candidate should remain careful in handling the question paper and in darkening the responses on the answer sheet.
- Within first 10 minutes, also ensure that your Question Booklet Serial No. and Answer Sheet Serial No. are the same. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Question Booklet and the Answer Sheet.

5. लेवल-3 (प्रवक्ता के लिए)

- भाग-I : बाल विकास व शिक्षा शास्त्र (प्र० 1 से प्र० 30)
भाग-II : भाषा : (प्र० 31 से प्र० 60)
(हिन्दी : 15 प्रश्न व अंग्रेजी : 15 प्रश्न)
भाग-III : सामान्य अध्ययन : (प्र० 61 से प्र० 90)
(मात्रात्मक योग्यता : 10 प्रश्न, तार्किक अभिक्षमता : 10 प्रश्न,
सामान्य ज्ञान एवं अभिज्ञान : 10 प्रश्न)
भाग-IV : अर्थशास्त्र (प्र० 91 से प्र० 150)

5. Level-3 (For Lecturer)

- Part-I : Child Development and Pedagogy (Q. 1 to Q. 30)
Part-II : Language : (Q. 31 to Q. 60)
(Hindi : 15 Q. & English : 15 Q.)
Part-III : General Studies : (Q. 61 to Q. 90)
(Quantitative Aptitude : 10 Q, Reasoning Ability : 10 Q, G. K. & Awareness : 10 Q)
Part-IV : Economics (Q. 91 to Q. 150)

नोट : कृपया इस पुस्तिका के अन्त में दिए गए शेष निर्देशों को पढ़ें। (Please read other remaining instructions given on the last page of this booklet.)

रफ कार्य के लिए (FOR ROUGH WORK)

PGTPrime.com

Telegram: t.me/pgtprime

भाग - I (PART - I)

बाल विकास व शिक्षाशास्त्र (CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY)

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए।

Direction : Answer the following questions by selecting the **most appropriate** option.

1. एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण, जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गौण होता है :

- [1] शाब्दिक परीक्षण
- [2] शक्ति परीक्षण
- [3] गति परीक्षण
- [4] निष्पादन परीक्षण

2. एक शिक्षण-अधिगम व्यवस्था जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह, किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं :

- [1] बहु-संवेदी अधिगम
- [2] दल शिक्षण
- [3] सहकारी अधिगम
- [4] अभिक्रमित अधिगम

3. स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण, व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है ?

- [1] शीलगुण उपागम
- [2] प्रकार उपागम
- [3] मूल प्रवृत्ति उपागम
- [4] मनोविश्लेषण उपागम

1. A type of intelligence test in which the difficulty level of questions gradually increases and the time factor is secondary :

- [1] Verbal Test
- [2] Power Test
- [3] Speed Test
- [4] Performance Test

2. A teaching-learning strategy in which small groups of students with different level of ability use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject :

- [1] Multi-sensory learning
- [2] Team teaching
- [3] Co-operative learning
- [4] Programmed learning

3. Spranger's classification of personality is related to which approach of personality assessment ?

- [1] Trait Approach
- [2] Type Approach
- [3] Instinct Approach
- [4] Psychoanalytic Approach

[A]

4. निम्नलिखित में से कौन-सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण **नहीं** है ?

- [1] काल्पनिक दुनिया में रहना
- [2] जीवन में संतुलन
- [3] अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं का ज्ञान
- [4] अवांछित चिंताओं से मुक्त

5. 'जब एक किशोर अपने माता-पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है, तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है।' यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का एक उदाहरण है ?

- [1] दमन
- [2] प्रतिगमन
- [3] प्रक्षेपण
- [4] विस्थापन

6. पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, 'संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई, जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है', कहलाती है :

- [1] सहज प्रवृत्तियाँ
- [2] मूल प्रवृत्तियाँ
- [3] स्कीमा
- [4] संरक्षण

[4]

4. Which of the following is **not** a symptom of good mental health of students ?

- [1] Living in fantasy world
- [2] Balance in life
- [3] Knowledge of our potentials and limitations
- [4] Free from undesirable worries

5. 'When an adolescent is unable to show anger to his parents, then he shows his anger to his younger brother.' This is an example of which type of defence mechanism ?

- [1] Repression
- [2] Regression
- [3] Projection
- [4] Displacement

6. According to Piaget's Cognitive Development Theory, 'The basic unit of the cognitive structure that helps in the implementation of cognitive behaviour', is termed as :

- [1] Reflexes
- [2] Basic Instincts
- [3] Schema
- [4] Conservation

7. "संवेगात्मक बुद्धि को चार क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है – संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रबंधित करने।" संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है ?
- [1] डेनियल गोलमैन
[2] मेयर एवं पीटर सलोवे
[3] पीटर एवं माइकल
[4] हालवरसन
8. निम्नलिखित में से कौन-सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि **नहीं** है ?
- [1] साक्षात्कार
[2] प्रक्षेपण
[3] प्रश्नावली
[4] अवलोकन
9. 'एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है, किन्तु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।' यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता प्रकट करता है ?
- [1] तत्परता का नियम
[2] अभ्यास का नियम
[3] प्रभाव का नियम
[4] बहुप्रतिक्रिया का नियम
10. निम्नलिखित में से कौन-सा शिक्षण का स्तर **नहीं** है ?
- [1] आधारभूत स्तर
[2] स्मृति स्तर
[3] अवबोध स्तर
[4] चिंतन स्तर

7. "Emotional Intelligence may be defined as the capacity to reason with emotion in four areas – to perceive emotion, to integrate it in thought, to understand it and to manage it." Who gave this definition of emotional intelligence ?
- [1] Daniel Goleman
[2] Mayer and Peter Salovey
[3] Peter and Michael
[4] Halverson
8. Which one of the following is **not** a direct method for measurement of attitude ?
- [1] Interview
[2] Projection
[3] Questionnaire
[4] Observation
9. 'A horse can be brought near water, but cannot be forced to drink.' This statement reveals the truth of Thorndike's which law of learning ?
- [1] Law of Readiness
[2] Law of Exercise
[3] Law of Effect
[4] Law of Multi Responses
10. Which of the following is **not** a level of teaching ?
- [1] Basic Level
[2] Memory Level
[3] Understanding Level
[4] Reflective Level

[A]

11. निम्नलिखित में से कौन-सा ब्रॉनफेनब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का भाग **नहीं** है ?

- [1] माइक्रो सिस्टम
- [2] मैक्रो सिस्टम
- [3] माइनर सिस्टम
- [4] मेसो सिस्टम

12. संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के सन्दर्भ में कौन-सा युग्म सही **नहीं** है ?

संवेग मूल प्रवृत्ति

- [1] क्रोध – निवृत्ति
- [2] अधिकार – संग्रह
- [3] आश्चर्य – जिज्ञासा
- [4] भय – पलायन

13. किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन-सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है ?

- [1] सामाजिकरण पर चर्चा
- [2] सामाजिक मूल्यों पर निबंध प्रतियोगिता
- [3] सामूहिक गतिविधियों का आयोजन
- [4] सामाजिक संबंधों पर वृत्तचित्र

14. मैस्तो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार, 'सम्मान की आवश्यकता' किस प्रकार की आवश्यकता है ?

- [1] व्यक्तिगत
- [2] सामाजिक
- [3] बौद्धिक
- [4] संवेगात्मक

[6]

11. Which one of the following is **not** a part of Bronfenbrenner's Ecological System theory ?

- [1] Micro system
- [2] Macro system
- [3] Minor system
- [4] Meso system

12. Which pair is **not** correct with reference to emotions and basic instincts ?

- | Emotion | Basic Instinct |
|---------------|----------------|
| [1] Anger | – Repulsion |
| [2] Ownership | – Collection |
| [3] Wonder | – Curiosity |
| [4] Fear | – Escape |

13. Which way is the most appropriate for social development of adolescents ?

- [1] Discussion on socialization
- [2] Essay competition on social values
- [3] Organizing group activities
- [4] Documentary on social relations

14. According to Maslow's Need Hierarchical theory, 'Esteem Needs' are which type of need ?

- [1] Personal
- [2] Social
- [3] Intellectual
- [4] Emotional

15. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य बाकर मेहदी के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित **नहीं** है ?

- [1] असाधारण उपयोग संबंधी कार्य
- [2] युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य
- [3] उत्पाद सुधार संबंधी कार्य
- [4] पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य

16. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में सही **नहीं** है ?

- [1] कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते।
- [2] वैयक्तिक विभिन्नताएँ अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती हैं।
- [3] वैयक्तिक विभिन्नताएँ विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती हैं।
- [4] वैयक्तिक विभिन्नताएँ केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं।

17. व्यक्तित्व अध्ययन की शीलगुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं ?

- [1] ऑलपोर्ट
- [2] वुडवर्थ
- [3] मैकडूगल
- [4] आइजेक

15. Which of the following task is **not** related to Baqer Mehdi's test of Creativity ?

- [1] Unusual uses related task
- [2] New relation between pairs related task
- [3] Product improvement related task
- [4] Ask and guess related task

16. Which of the following statement is **not** correct with reference to individual differences ?

- [1] No two persons can be exactly alike.
- [2] Individual differences may belong to different areas.
- [3] Individual differences affects different dimensions of development.
- [4] Individual differences arises only due to heredity.

17. Who is called the father of Trait Theory for study of personality ?

- [1] Allport
- [2] Woodworth
- [3] McDougall
- [4] Eysenck

[A]

18. संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सूचना प्राप्त करने हेतु **सही** है ?

- [1] सुनना और लिखना
- [2] बोलना और पढ़ना
- [3] सुनना और पढ़ना
- [4] बोलना और लिखना

19. त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा बुद्धि का एक प्रकार **नहीं** है ?

- [1] विश्लेषणात्मक
- [2] सृजनात्मक
- [3] सैद्धांतिक
- [4] व्यावहारिक

20. कोहलबर्ग के सिद्धांतानुसार, यह किस स्तर की नैतिकता है, जब नैतिकता में स्व-स्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं ?

- [1] पूर्व-रूढ़िगत
- [2] रूढ़िगत
- [3] उत्तर-रूढ़िगत
- [4] इनमें से कोई नहीं

21. निम्नलिखित में से कौन-सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता **नहीं** है ?

- [1] यह संधिकरण की अवस्था है।
- [2] यह अवास्तविकताओं की अवस्था है।
- [3] यह पहचान की खोज का समय है।
- [4] यह यौवनारंभ की दहलीज है।

[8]

18. Which of the following pairs of communication skills is **correct** for receiving the information ?

- [1] Listening and Writing
- [2] Speaking and Reading
- [3] Listening and Reading
- [4] Speaking and Writing

19. According to Triarchic Theory, which of the following is **not** a type of intelligence ?

- [1] Analytical
- [2] Creative
- [3] Theoretical
- [4] Practical

20. According to Kohlberg's theory, what level of morality is it, when morality includes self-accepted moral principles ?

- [1] Pre-conventional
- [2] Conventional
- [3] Post-conventional
- [4] None of these

21. Which of the following is **not** a general characteristic of adolescence period ?

- [1] It is a transitional period.
- [2] It is period of unrealism.
- [3] It is time for search of identity.
- [4] It is the threshold of puberty.

22. व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अन्तर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया ?

- [1] मरे एवं मॉर्गन
- [2] बैलक
- [3] आइजेंक
- [4] ऑलपोर्ट एवं कैटल

23. जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, तो यह किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है ?

- [1] निश्चित अनुपात
- [2] परिवर्तनशील अनुपात
- [3] निश्चित अंतराल
- [4] परिवर्तनशील अंतराल

24. पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांतानुसार, किशोरावस्था है :

- [1] नैतिक वास्तविकता की अवस्था
- [2] दबाव की नैतिकता की अवस्था
- [3] परायत्त नैतिकता की अवस्था
- [4] स्वायत्त नैतिकता की अवस्था

25. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है ?

- [1] अर्थहीन विषयवस्तु
- [2] परिपक्वता की कमी
- [3] अभिप्रेरणा की कमी
- [4] सूचनात्मक प्रतिपुष्टि

22. Who developed the Thematic Apperception Test for personality assessment ?

- [1] Murray and Morgan
- [2] Bellack
- [3] Eysenck
- [4] Allport and Cattell

23. What type of reinforcement schedule is it, when reinforcement is provided to the learner only after a certain number of responses ?

- [1] Fixed ratio
- [2] Variable ratio
- [3] Fixed interval
- [4] Variable interval

24. According to the moral development theory of Piaget, adolescence period is :

- [1] Stage of moral realism
- [2] Stage of morality constraint
- [3] Stage of heteronomous morality
- [4] Stage of autonomous morality

25. Which of the following factors positively affects learning ?

- [1] Meaningless content
- [2] Lack of maturation
- [3] Lack of motivation
- [4] Informational feedback

[A]

[10]

26. रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है। यह एक उदाहरण है :

- [1] आंतरिक अभिप्रेरणा का
- [2] बाह्य अभिप्रेरणा का
- [3] जन्मजात अभिप्रेरणा का
- [4] इनमें से कोई नहीं

27. एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, जबकि उसकी मानसिक आयु 12 है ?

- [1] 80
- [2] 90
- [3] 100
- [4] 110

28. एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य **नहीं** करेंगे ?

- [1] मौलिकता को प्रोत्साहन
- [2] भय को दूर करना
- [3] प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता
- [4] अपसारी चिंतन का परिहार

29. विकास जो 'केन्द्र से परिधि की ओर' बढ़ता है, कहलाता है :

- [1] सिफैलिक कॉडल
- [2] प्रोक्सिमोडिस्टल
- [3] सर्पिल
- [4] वृत्तीय

30. भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है ?

- [1] बाह्य
- [2] अर्जित
- [3] आन्तरिक
- [4] सामाजिक

26. Rohit helps others to get praise. This is an example of :

- [1] Intrinsic Motivation
- [2] Extrinsic Motivation
- [3] Innate Motivation
- [4] None of these

27. What will be the intelligence quotient of a 15 year old boy, when his mental age is 12 ?

- [1] 80
- [2] 90
- [3] 100
- [4] 110

28. As a teacher which of the following work would **not** be done by you to develop the creativity of the students ?

- [1] Encouragement of originality
- [2] Removal of fear
- [3] Freedom to respond
- [4] Avoidance of divergent thinking

29. Development which proceeds from 'centre to the periphery', is known as :

- [1] Cephalic Caudal
- [2] Proximodistal
- [3] Spiral
- [4] Circular

30. Hunger and Thirst is which type of motive ?

- [1] Extrinsic
- [2] Acquired
- [3] Intrinsic
- [4] Social

भाग - II (PART - II)

भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) [LANGUAGES (HINDI & ENGLISH)]

हिन्दी (HINDI)

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए।

31. पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए :

- [1] गधा - लंबकर्ण, वैशाखनन्दन, गर्दभ
[2] गरुड़ - वैनतेय, कामारि, काक
[3] गणिका - सर्ववल्लभा, वारांगना, पतुरिया
[4] ग्वाला - आभीर, अहीर, गोप

32. किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ?

- [1] हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए।
[2] तेते पाँव पसारिये, जेती लाँबी सौर।
[3] हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
[4] जैसा करोगे, वैसा ही भरोगे।

33. “आनन्दा चुपके-से चली गई।” वाक्य में किस प्रकार के क्रिया-विशेषण का प्रयोग हुआ है ?

- [1] कालवाचक
[2] रीतिवाचक
[3] परिमाणवाचक
[4] स्थानवाचक

34. समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल विकल्प है :

- [1] सदेह - देह सहित; सन्देह - संशय
[2] सुअन - पुत्र; सुमन - फूल
[3] सुकृती - सत्कर्म; सुकृति - पुण्यवान्
[4] स्वजन - बन्धु; श्वजन - कुत्ता

35. उसने मुझे सदैव धोखा दिया। वाक्य में प्रयुक्त ‘धोखा’ शब्द कौन-सी संज्ञा का उदाहरण होगा ?

- [1] समुदायवाचक संज्ञा
[2] जातिवाचक संज्ञा
[3] भाववाचक संज्ञा
[4] व्यक्तिवाचक संज्ञा

36. इनमें से कौन-सा वाक्य अशुद्ध है ?

- [1] तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है।
[2] हम सभी में मनुष्यी दुर्बलताएँ हैं।
[3] वह पाँव से जूता उतार रहा है।
[4] शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है।

37. किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है ?

- [1] अध्यापक [2] अन्वेषण
[3] अनुष्ठान [4] व्याधि

[A]

38. समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए :

- [1] कनकलता - कर्मधारय
[2] सचिवालय - तत्पुरुष
[3] चौराहा - द्विगु
[4] आकंठ - बहुव्रीहि

39. किस विकल्प में विसर्ग सन्धि का प्रयोग हुआ है ?

- [1] युधिष्ठिर
[2] वयोवृद्ध
[3] परोपदेश
[4] निष्ठुर

40. शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से 'श्रद्धा' शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा ?

- [1] शौर्य
[2] श्याम
[3] शृंगार
[4] श्रमिक

41. विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए :

- [1] उपत्यका - अधित्यका
[2] उन्मुख - अभिमुख
[3] कल्पना - यथार्थ
[4] कुत्सा - प्रशंसा

[12]

42. इनमें से किस शब्द में 'आवट' प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है ?

- [1] गुर्राहट [2] सजावट
[3] बुनावट [4] तरावट

43. उच्चारण की दृष्टि से 'ल' वर्ण का उच्चारण स्थान होगा :

- [1] ओष्ठ
[2] मूर्धा
[3] तालु
[4] दन्त

44. 'पशु' शब्द से निर्मित विशेषण है :

- [1] पाशविक
[2] पशुपति
[3] पशुता
[4] पशुत्व

45. 'तत्सम-तद्भव' की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए :

- [1] लोमशा - लोमड़ी
[2] रज्जु - रस्सी
[3] पाषाण - पत्थर
[4] मस्तक - माथा

अंग्रेजी (ENGLISH)

Direction : Answer the following questions by selecting the **most appropriate** option.

46. Which of the following options express the **correct** meaning of the sentence given below ?

He is too cute to overlook.

- [1] He is too cute and he can be overlooked.
- [2] He is too cute but he can be overlooked.
- [3] He is so cute that he cannot be overlooked.
- [4] Although he is not cute, but he cannot be overlooked.

47. Change the narration :

Kavin said to Mr. Cowper, "Please, be kind to me."

- [1] Kavin requested Mr. Cowper to be kind to him.
- [2] Kavin requested Mr. Cowper to be kind to me.
- [3] Kavin asked Mr. Cowper to be please kind to me.
- [4] Kavin asked Mr. Cowper that he must be kind to him.

48. Fill in the blank with the **correct** form of verb :

You had better your hands before you eat.

- [1] been washing
- [2] washing
- [3] washed
- [4] wash

49. The word 'garrulous' means :

- [1] talkative [2] abusive
- [3] violent [4] abundant

50. Arrange the following jumbled options in the correct order and then choose the **correct** option :

- (i) too many (ii) spoil
- (iii) the broth (iv) cooks

- [1] (i), (iv), (iii), (ii)
- [2] (i), (iv), (ii), (iii)
- [3] (iii), (iv), (ii), (i)
- [4] (iv), (ii), (i), (iii)

51. Fill in the blank with the **correct** option :

Let us stay here, while it

- [1] is raining
- [2] was raining
- [3] has been raining
- [4] had been raining

52. Choose the part of the sentence that is grammatically **incorrect** :

The thief took towards/his heels/on seeing/the Police-van arrive.

- [1] The thief took towards
- [2] his heels
- [3] on seeing
- [4] the Police-van arrive.

[A]

[14]

53. Choose the part of the sentence that is grammatically *incorrect* :

He has committed / a blunder / mistake / today morning.

- [1] He has committed
- [2] a blunder
- [3] mistake
- [4] today morning.

54. Fill in the blank with the *correct* form of verb :

Neither you nor she made the mistake.

- [1] have [2] has
- [3] had [4] did

55. Fill in the blank with *correct* 'Modal Auxiliary' :

Passengers not walk across the railway line.

(Prohibition)

- [1] should [2] can
- [3] need [4] must

56. Choose the *correct* passive of the given sentence :

Did he kill a lion ?

- [1] Did a lion killed by him ?
- [2] Was a lion killed by you ?
- [3] Was a lion killed by him ?
- [4] Had a lion been killed by you ?

57. Fill in the blank with the *correct* option :

Mr. Sudhir Soni is R. A. S. Officer.

- [1] an [2] a
- [3] the [4] ×

58. Fill in the blank with the *correct* option that completes the idiom :

A rolling stone

- [1] carries rough winds
- [2] kills no one
- [3] gathers no sauce
- [4] gathers no moss

59. Fill in the blank with the *correct* option :

When Monisha reached the bus stand, the bus

- [1] was already left
- [2] had already left
- [3] already left
- [4] has been already left

60. Which of the following sentences is the *correct* option to express present perfect continuous tense ?

- [1] Mr. Mehta has been waking for 2 O'clock in the morning.
- [2] Mr. Mehta has been waking since 2 O'clock in the morning.
- [3] Mr. Mehta has been waked since 2 O'clock in the morning.
- [4] Mr. Mehta has been waking from 2 O'clock in the morning.

भाग - III (PART - III)

सामान्य अध्ययन (GENERAL STUDIES)

मात्रात्मक योग्यता, तार्किक अभिक्षमता तथा सामान्य ज्ञान एवं अभिज्ञान (QUANTITATIVE APTITUDE, REASONING ABILITY AND G.K. & AWARENESS)

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए **सबसे उचित विकल्प चुनिए।**

Direction : Answer the following questions by selecting the **most appropriate** option.

61. सूर्योदय के समय X तथा Y दोनों का एक-दूसरे की तरफ मुँह है। यदि Y की परछाई X के दायीं ओर पड़ रही हो, तो Y का मुँह किस दिशा में है ?

- [1] उत्तर
[2] दक्षिण
[3] पूर्व
[4] पश्चिम

62. एक नाव, किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 3 घंटे में, जबकि वापसी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है, तो शान्त जल में नाव की चाल है :

- [1] 10 किमी प्रति घंटा
[2] 12 किमी प्रति घंटा
[3] 13 किमी प्रति घंटा
[4] 15 किमी प्रति घंटा

63. 10.5 सेमी त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर, 3.5 सेमी त्रिज्या तथा 3 सेमी ऊँचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाल दिया जाता है। तदनुसार, इस प्रकार बने शंकु की संख्या कितनी होगी ?

- [1] 112 [2] 126
[3] 132 [4] 138

61. X and Y are facing each other at sunrise. The shadow of Y is falling towards right of X, then Y is facing in which direction ?

- [1] North
[2] South
[3] East
[4] West

62. A boat covers a certain distance downstream in 3 hours, while it comes back in 4.5 hours. If the speed of the stream be 3 kmph, then the speed of the boat in still water is :

- [1] 10 kmph
[2] 12 kmph
[3] 13 kmph
[4] 15 kmph

63. A metallic sphere of radius 10.5 cm is melted and then recast into small cones each of radius 3.5 cm and height 3 cm, then the number of cones thus formed is :

- [1] 112 [2] 126
[3] 132 [4] 138

[A]

[16]

64. यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर $3\frac{3}{8}$ गुना हो जाए, तो ब्याज की वार्षिक दर है :

[1] $16\frac{2}{3}\%$

[2] $33\frac{1}{3}\%$

[3] 33%

[4] 50%

65. 1865 लोगों में से, 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 1305 हिन्दी बोल सकते हैं, परन्तु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो कितने लोग दोनों भाषाएँ बोल सकते हैं ?

[1] 220

[2] 440

[3] 120

[4] 1085

66. चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किग्रा चावल ज्यादा खरीद लेता है, तो चावल की मूल कीमत प्रति किग्रा कितनी है ?

[1] 12 रुपये

[2] 14 रुपये

[3] 15 रुपये

[4] 16 रुपये

64. If the amount is $3\frac{3}{8}$ times the sum after 3 years at compound interest compounded annually, then the rate of interest per annum is :

[1] $16\frac{2}{3}\%$

[2] $33\frac{1}{3}\%$

[3] 33%

[4] 50%

65. Out of 1865 people, 660 can speak English and 1305 can speak Hindi, but 120 persons cannot speak either language, then how many persons can speak both languages ?

[1] 220

[2] 440

[3] 120

[4] 1085

66. A reduction of 20% in the price of rice enables a customer to purchase 12.5 kg more for Rs. 800. The original price of rice per kg is :

[1] Rs. 12

[2] Rs. 14

[3] Rs. 15

[4] Rs. 16

67. विभाजन के एक योगफल में विभाजक, भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 हो, तो भाज्य है :

- [1] 2726 [2] 2736
[3] 2796 [4] 2826

68. निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए :

Z1A, X2D, V6G, T21J, R88M, P445P, ?

- [1] N2676T
[2] T2670N
[3] N2676S
[4] M2670S

69. किसी संख्या को 5, 9, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 6 तथा 10 शेष बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या है :

- [1] 602 [2] 592
[3] 572 [4] 582

70. एक निश्चित कूट भाषा में "PARTICLE" को "USBQFMDJ" तथा "GENERATE" को "FOFHFUBS" लिखा जाता है, तो इसी समान कूट भाषा में, "DOCUMENT" को लिखा जायेगा :

- [1] VDEPUOSF
[2] VDPENFUQ
[3] VDPEUOFN
[4] VDPEUOSF

67. In a division sum, the divisor is 12 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 36, then the dividend is :

- [1] 2726 [2] 2736
[3] 2796 [4] 2826

68. Find the next term of the following series :

Z1A, X2D, V6G, T21J, R88M, P445P, ?

- [1] N2676T
[2] T2670N
[3] N2676S
[4] M2670S

69. A number when divided by 5, 9, 13 leaves remainder 2, 6 and 10 respectively. The least such number is :

- [1] 602 [2] 592
[3] 572 [4] 582

70. In a certain code language "PARTICLE" is written as "USBQFMDJ" and "GENERATE" is written as "FOFHFUBS", then in same code language "DOCUMENT" will be written as :

- [1] VDEPUOSF
[2] VDPENFUQ
[3] VDPEUOFN
[4] VDPEUOSF

[A]

71. तीन नलों P, Q तथा R द्वारा एक टैंक 5 घंटे में भरता है। नल R, Q से दुगुनी गति से तथा Q, P से दुगुनी गति से चलते हैं, तो अकेले नल P द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ?

[1] 22 घंटे [2] 25 घंटे

[3] 30 घंटे [4] 35 घंटे

72. यदि $x = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ तथा $y = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$, तो (x^2+y^2) का मान है :

[1] 14 [2] 12

[3] 13 [4] 16

73. लड़कियों की एक पंक्ति में, A बायीं ओर से 10वें स्थान पर तथा B दायीं ओर से 14वें स्थान पर है, यदि वे अपनी स्थितियाँ परस्पर बदल लेती हैं, तो A बायीं ओर से 24वें स्थान पर हो जाती है, पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी है ?

[1] 31 [2] 33

[3] 37 [4] 39

74. एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, अगर उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसका लाभ 18% हो जाता। उस वस्तु का क्रय मूल्य (रु० में) है :

[1] 360

[2] 540

[3] 600

[4] 640

[18]

71. A tank is filled in 5 hours by three pipes P, Q and R. The pipe R is twice as fast as Q and Q is twice as fast as P. How much time will pipe P alone take to fill the tank ?

[1] 22 hrs [2] 25 hrs

[3] 30 hrs [4] 35 hrs

72. If $x = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ and $y = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$, then the value of (x^2+y^2) is :

[1] 14 [2] 12

[3] 13 [4] 16

73. In a row of girls, A is 10th from the left and B is 14th from the right. If they interchange their positions, A becomes 24th from the left. How many girls are there in a row ?

[1] 31 [2] 33

[3] 37 [4] 39

74. A shopkeeper sells an article at 15% gain. Had he sold it for Rs. 18 more, he would have gained 18%. The cost price (in Rs.) of the article is :

[1] 360

[2] 540

[3] 600

[4] 640

75. एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि दर 5% और महिलाओं की वृद्धि दर 8% हो एवं एक वर्ष में जनसंख्या 9600 हो, तो पुरुषों की संख्या है :

[1] 3000

[2] 4000

[3] 5000

[4] 5600

76. D, C तथा E से लम्बा है, A, E से अधिक लम्बा नहीं है, C, A से लम्बा है, D, B से अधिक लम्बा नहीं है, तो इनमें से कौन सबसे लम्बा है ?

[1] A

[2] B

[3] C

[4] D

77. एक लड़की के फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए X ने कहा कि “वह मेरे दादा जी के इकलौते पुत्र की लड़की है”, तो लड़की का X से किस प्रकार संबंध है ?

[1] पिता

[2] भाई

[3] बहन

[4] माता

75. The population of a town is 9000. If the males increase by 5% and females by 8%, the population would be 9600 in a year. The number of males is :

[1] 3000

[2] 4000

[3] 5000

[4] 5600

76. D is taller than C and E. A is not as tall as E. C is taller than A. D is not as tall as B. Who is the tallest among them ?

[1] A

[2] B

[3] C

[4] D

77. Pointing to a girl in photograph, X said "She is the daughter of my grandfather's only son". How is the girl related to X ?

[1] Father

[2] Brother

[3] Sister

[4] Mother

[A]

[20]

78. एक वाष्प इंजन वाली रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चल रही है, तो उसका धुआँ किस दिशा में जाएगा ?

- [1] उ० - प०
- [2] उ० - पू०
- [3] द० - पू०
- [4] द० - प०

79. निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद है :

3, 13, 22, 32, 59, 69, 120, 130, ?

- [1] 201
- [2] 211
- [3] 227
- [4] 232

80. 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें दो अगली संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, तो नया औसत कितना हो जायेगा ?

- [1] वही समान रहेगा
- [2] 1 की वृद्धि होगी
- [3] 1.5 की वृद्धि होगी
- [4] 2 की वृद्धि होगी

78. A steam engine train runs from east to west and wind is blowing from north to south, then the smoke from the train would blow in which direction ?

- [1] N - W
- [2] N - E
- [3] S - E
- [4] S - W

79. The next term of the following number series is :

3, 13, 22, 32, 59, 69, 120, 130, ?

- [1] 201
- [2] 211
- [3] 227
- [4] 232

80. The average of nine consecutive numbers is n . If the next two numbers are also included, the new average is :

- [1] remain the same
- [2] increase by 1
- [3] increase by 1.5
- [4] increase by 2

81. हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर सन्धि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है ?

- [1] सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य
- [2] कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और खपरवास वन्यजीव अभयारण्य
- [3] नाहर वन्यजीव अभयारण्य और बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य
- [4] अबूशहर वन्यजीव अभयारण्य और खोल-ही-रैतान वन्यजीव अभयारण्य

82. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :

- (i) हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी।
- (ii) न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे।

- [1] केवल (i) सही है।
- [2] केवल (ii) सही है।
- [3] (i) एवं (ii) दोनों सही हैं।
- [4] (i) एवं (ii) दोनों गलत हैं।

83. हरियाणा के किस शहर को 'सिटी ऑफ वार हीरोज' के रूप में जाना जाता है ?

- [1] गुरुग्राम [2] सोनीपत
- [3] पानीपत [4] भिवानी

81. Which places of Haryana have been notified as Ramsar site under Ramsar convention of UNESCO ?

- [1] Sultanpur National Park & Bhindawas Wildlife Sanctuary
- [2] Kalesar National Park & Khaparwas Wildlife Sanctuary
- [3] Nahar Wildlife Sanctuary & Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary
- [4] Abushahar Wildlife Sanctuary & Khol-Hi-Raitan Wildlife Sanctuary

82. Consider the following statements :

- (i) The institution of Lokayukta was established in Haryana in the year 2002.
- (ii) Justice Pritam Pal was the first Lokayukta in the State of Haryana.

- [1] Only (i) is correct.
- [2] Only (ii) is correct.
- [3] Both (i) and (ii) are correct.
- [4] Both (i) and (ii) are incorrect.

83. Which of the city of Haryana is known as the 'City of War Heroes' ?

- [1] Gurugram [2] Sonipat
- [3] Panipat [4] Bhiwani

[A]

[22]

84. हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है ?

- (i) शेख तैयब का मकबरा
- (ii) शोभा सागर तालाब
- (iii) भीमादेवी मंदिर कॉम्प्लेक्स

सही कूट का चयन कीजिए :

- [1] (i) और (ii)
- [2] (ii) और (iii)
- [3] (i) और (iii)
- [4] (i), (ii) और (iii)

85. हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन-सी संस्था जिम्मेदार है ?

- [1] हारट्रोन
- [2] हुडा
- [3] एचएसआईआईडीसी
- [4] जिला उद्योग केन्द्र

86. निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त **नहीं** होता है ?

- [1] हरियाणा के मुख्यमंत्री
- [2] पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
- [3] हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य
- [4] हरियाणा मानवाधिकार आयोग का सदस्य

84. Which of the following monuments of Haryana have the status of State protected monuments ?

- (i) Sheikh Tayyab's Tomb
- (ii) Shobha Sagar Pond
- (iii) Bhimadevi Temple Complex

Choose the **correct** code :

- [1] (i) and (ii)
- [2] (ii) and (iii)
- [3] (i) and (iii)
- [4] (i), (ii) and (iii)

85. Which of the following institute is responsible for the development of infrastructure facilities in industrial areas of Haryana ?

- [1] HARTRON
- [2] HUDA
- [3] HSIIDC
- [4] District Industries Centre

86. Who among the following is **not** appointed by the Governor of Haryana ?

- [1] Chief Minister of Haryana
- [2] A Judge of Punjab and Haryana High Court
- [3] A member of Haryana Public Service Commission
- [4] A member of Haryana Human Rights Commission

87. हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन एक नौकरशाह था ?

- [1] मुज़फ्फर हुसैन बर्नी
- [2] जयसुख लाल हाथी
- [3] धनिक लाल मंडल
- [4] बाबू परमानंद

88. 'परिवार पहचान पत्र योजना' के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए :

- (i) यह योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिह्नित करती है और यह हरियाणा के समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय सामाजिक-आर्थिक डेटाबेस तैयार कर रही है।
- (ii) प्रत्येक परिवार को एक आठ अंकों की विलक्षण परिवार पहचान आवण्टित की जा रही है और पहचान (ID) को जन्म, मृत्यु एवं वैवाहिक रिकॉर्ड्स से जोड़ा जाएगा।
- (iii) परिवार पहचान डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में स्वतः चयन हेतु किया जाएगा और परिवारों को स्वयं योजनाओं के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सही कूट का चयन कीजिए :

- [1] केवल (ii) सही है।
- [2] (i) और (ii) सही हैं।
- [3] (ii) और (iii) सही हैं।
- [4] (i), (ii) और (iii) सही हैं।

87. Who among the following Governors of Haryana was a civil servant ?

- [1] Muzaffar Hussain Burney
- [2] Jaisukh Lal Hathi
- [3] Dhanik Lal Mandal
- [4] Babu Parmanand

88. Read the following statements about 'Parivar Pehchan Patra Yojna' :

- (i) This scheme identifies family as a unit and is creating a reliable socio-economic database of all the families in Haryana.
- (ii) An eight digit unique family ID is being issued for every family and the ID will be linked to birth, death and marriage records.
- (iii) The data available in family ID database will be utilized to determine automatic verification for various welfare schemes and families will not be required to apply themselves for benefits.

Choose the **correct** code :

- [1] Only (ii) is correct.
- [2] (i) and (ii) are correct.
- [3] (ii) and (iii) are correct.
- [4] (i), (ii) and (iii) are correct.

[A]

[24]

89. हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- (i) वह हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं।
- (ii) वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं।
- (iii) वह इण्डियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं।
- (iv) उन्हें संविधान के अन्तर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन **सही** है/हैं ?

- [1] (i), (ii), (iii) और (iv)
- [2] (ii), (iii) और (iv)
- [3] केवल (iii)
- [4] (ii) और (iii) दोनों

90. हरियाणा में लोक सभा और राज्य सभा की सीटें हैं :

- [1] 7 और 4
- [2] 10 और 4
- [3] 10 और 5
- [4] 12 और 5

89. Consider the following statements regarding the Governor of Haryana :

- (i) He is the Chancellor of Central University of Haryana.
- (ii) He can hold any office of the profit in the State.
- (iii) He is the President of Indian Red Cross Society, Haryana State Branch.
- (iv) He does not have any discretionary power granted under the Constitution.

Which of the above statement(s) is/are **correct** ?

- [1] (i), (ii), (iii) and (iv)
- [2] (ii), (iii) and (iv)
- [3] Only (iii)
- [4] Both (ii) and (iii)

90. The Lok Sabha and Rajya Sabha seats in Haryana are :

- [1] 7 and 4
- [2] 10 and 4
- [3] 10 and 5
- [4] 12 and 5

भाग – IV (PART – IV)
अर्थशास्त्र (ECONOMICS)

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए **सबसे उचित विकल्प चुनिए।**

Direction : Answer the following questions by selecting the **most appropriate** option.

91. उन पंचवर्षीय योजनाओं को पहचानिए, जब वास्तविक संवृद्धि प्राप्ति, संवृद्धि लक्ष्य से अधिक थी :

- (i) पाँचवीं योजना
- (ii) सातवीं योजना
- (iii) नौवीं योजना
- (iv) दसवीं योजना

सही कूट चुनिए :

- [1] i, ii, iii
- [2] ii, iii, iv
- [3] i, ii
- [4] iii, iv

92. प्रगतिशील कर वह है जिसमें :

- [1] कर भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में घटता है
- [2] कर भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में स्थिर रहता है
- [3] कर भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में बढ़ता है
- [4] आय और कर भुगतान के बीच कोई अनुबंध नहीं होता है

91. Identify the Five Year Plans when actual growth realization has been higher than the growth target :

- (i) Fifth Plan
- (ii) Seventh Plan
- (iii) Ninth Plan
- (iv) Tenth Plan

Choose the **correct** code :

- [1] i, ii, iii
- [2] ii, iii, iv
- [3] i, ii
- [4] iii, iv

92. A Progressive Tax is one in which :

- [1] The tax payment as a percentage of income falls
- [2] The tax payment as a percentage of income is constant
- [3] The tax payment as a percentage of income increases
- [4] There is no linkage between income and tax payment

[A]

[26]

93. कैप्शन (Caption) का अर्थ है :

- [1] सारणी का शीर्षक
- [2] खाने का शीर्षक
- [3] पंक्ति का शीर्षक
- [4] स्रोत का शीर्षक

94. अपवर्जन सिद्धान्त लागू *नहीं* होता है :

- [1] मेरिट वस्तुओं पर
- [2] सार्वजनिक वस्तुओं पर
- [3] निजी वस्तुओं पर
- [4] सभी वस्तुओं पर

95. किस प्रकार की जमाएँ विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य कर सकती हैं ?

- [1] समय जमाएँ
- [2] माँग जमाएँ
- [3] स्थिर जमाएँ
- [4] उपरोक्त सभी

93. A Caption means :

- [1] Title of the table
- [2] Heading of a column
- [3] Title of a row
- [4] Heading of source

94. Exclusion principle is *not* applicable to :

- [1] Merit goods
- [2] Public goods
- [3] Private goods
- [4] All goods

95. Which type of deposits may serve as a medium of exchange ?

- [1] Time Deposits
- [2] Demand Deposits
- [3] Fixed Deposits
- [4] All of the above

96. निम्नलिखित में से कौन 'आयुष' (AYUSH) में सम्मिलित **नहीं** है ?

- [1] एलोपैथी
- [2] आयुर्वेद
- [3] होमियोपैथी
- [4] यूनानी

97. प्रतिष्ठित सिद्धान्त में, मुद्रा पूर्ति में कमी किस ओर प्रवृत्त करती है ?

- [1] कीमत स्तर में कमी
- [2] बचतों में वृद्धि
- [3] निवेश में कमी
- [4] कीमत स्तर में वृद्धि

98. बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह दर है, जहाँ पर :

- [1] मुद्रास्फीति की दर स्थिर होती है
- [2] मुद्रास्फीति की दर अस्थिर होती है
- [3] मुद्रास्फीति की दर घटती है
- [4] मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है

96. Which of the following is **not** included in 'AYUSH' ?

- [1] Allopathy
- [2] Ayurveda
- [3] Homeopathy
- [4] Unani

97. In Classical theory, a decrease in money supply leads to :

- [1] Decrease in price level
- [2] Increase in savings
- [3] Decrease in investment
- [4] Increase in price level

98. Natural rate of unemployment is the rate of unemployment, at which :

- [1] Rate of inflation is stable
- [2] Rate of inflation is unstable
- [3] Rate of inflation is falling
- [4] Rate of inflation is rising

[A]

[28]

99. निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत *नहीं* है ?

- [1] कोयला
- [2] सौर ऊर्जा
- [3] पेट्रोलियम
- [4] प्राकृतिक गैस

100. उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम दिया :

- [1] मिल्टन फ्रीडमैन ने
- [2] पीगू ने
- [3] टॉबिन ने
- [4] केन्ज ने

101. निम्न में कौन-सा सम्बन्ध सही *नहीं* है ?

- [1] $GDP_{MP} = GDP_{FC} + \text{विशुद्ध परोक्ष कर}$
- [2] $NNP_{FC} = NDP_{FC} + \text{विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय}$
- [3] $GNP_{MP} = NNP_{FC} + \text{मूल्यहास} + \text{विशुद्ध परोक्ष कर}$
- [4] $NNP_{MP} = GDP_{MP} + \text{मूल्यहास} + \text{विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय}$

99. Which of the following is *not* a conventional source of energy ?

- [1] Coal
- [2] Solar Energy
- [3] Petroleum
- [4] Natural Gas

100. Psychological law of consumption is given by :

- [1] Milton Friedman
- [2] Pigou
- [3] Tobin
- [4] Keynes

101. Which of the following relation is *incorrect* ?

- [1] $GDP_{MP} = GDP_{FC} + \text{Net Indirect Taxes}$
- [2] $NNP_{FC} = NDP_{FC} + \text{Net Factor Income from Abroad}$
- [3] $GNP_{MP} = NNP_{FC} + \text{Depreciation} + \text{Net Indirect Taxes}$
- [4] $NNP_{MP} = GDP_{MP} + \text{Depreciation} + \text{Net Factor Income from Abroad}$

102. भुगतान शेष के चालू खाते में रिकार्ड किया जाता है :

- [1] वस्तुओं के निर्यात तथा आयात को
- [2] सेवाओं के निर्यात तथा आयात को
- [3] एकपक्षीय हस्तांतरणों को
- [4] सभी विकल्प सही हैं

103. भारत में जी० एस० टी० (GST) कानून लागू हुआ :

- [1] 1 जून, 2017 को
- [2] 1 जुलाई, 2016 को
- [3] 1 जुलाई, 2017 को
- [4] 1 जून, 2016 को

104. निम्न में से किसका निर्धारण रेखाचित्र विधि द्वारा **नहीं** किया जा सकता है ?

- [1] माध्य
- [2] माध्यिका
- [3] बहुलक
- [4] चतुर्थक

102. Current account of Balance of Payment records :

- [1] Export and import of goods
- [2] Export and import of services
- [3] Unilateral transfers
- [4] All options are right

103. GST Law came into effect in India from :

- [1] 1 June, 2017
- [2] 1 July, 2016
- [3] 1 July, 2017
- [4] 1 June, 2016

104. Which of the following can **not** be determined by Graphic method ?

- [1] Mean
- [2] Median
- [3] Mode
- [4] Quartiles

[A]

[30]

105. निम्न में से कौन-सा एक सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उदाहरण *नहीं* है ?

- [1] प्रत्यक्ष कर
- [2] अप्रत्यक्ष कर
- [3] सरकार द्वारा किये गये निवेश पर लाभांश
- [4] विश्व बैंक से लिया गया ऋण

106. ग्रामीण साख के संस्थागत स्रोतों में सम्मिलित है :

- [1] सहकारी समितियाँ
- [2] व्यापारिक बैंक
- [3] क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- [4] सभी विकल्प सही हैं

107. समय-उत्क्रम्यता परीक्षण सन्तुष्ट होता है, जब :

- [1] $P_{01} \times P_{10} = 0$
- [2] $P_{01} \times P_{10} = 1$
- [3] $P_{01} \times P_{10} > 1$
- [4] $P_{01} \times P_{10} < 1$

105. Which of the following is *not* an example of revenue receipts of Government ?

- [1] Direct taxes
- [2] Indirect taxes
- [3] Dividends on investments made by the Government
- [4] Loan received from World Bank

106. Institutional sources of rural credit include :

- [1] Cooperative Societies
- [2] Commercial Banks
- [3] Regional Rural Banks
- [4] All options are right

107. Time Reversal Test is satisfied, when :

- [1] $P_{01} \times P_{10} = 0$
- [2] $P_{01} \times P_{10} = 1$
- [3] $P_{01} \times P_{10} > 1$
- [4] $P_{01} \times P_{10} < 1$

108. समान्तर माध्य की गणना के लिए वर्गान्तर होने चाहिए :

- (i) अपवर्जी
- (ii) असमान
- (iii) समान

सही कूट चुनिए :

- [1] (i) एवं (ii) दोनों संभव
- [2] (i) एवं (iii) दोनों संभव
- [3] केवल (i) संभव
- [4] (i), (ii) एवं (iii) सभी संभव

109. मुद्रा पूर्ति के सन्दर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सही **नहीं** है ?

- [1] मुद्रा पूर्ति एक स्टॉक चर है।
- [2] मुद्रा पूर्ति का कोई समय आयाम नहीं है।
- [3] M_3 मुद्रा पूर्ति का सबसे व्यापक रूप से प्रयोग में लिया जाने वाला माप है।
- [4] M_4 मुद्रा पूर्ति का सबसे तरल माप है।

108. For the calculation of Arithmetic Mean the Class Intervals should be :

- (i) Exclusive
- (ii) Unequal
- (iii) Equal

Choose the **correct** code :

- [1] Both (i) and (ii) are possible
- [2] Both (i) and (iii) are possible
- [3] Only (i) is possible
- [4] All (i), (ii) and (iii) are possible

109. Which of the following statement is **incorrect** regarding money supply ?

- [1] The supply of money is a stock variable.
- [2] The supply of money does not have any time dimension.
- [3] M_3 is the most widely used measure of money supply.
- [4] M_4 being the most liquid measure of money supply.

[A]

[32]

110. विचरण गुणांक का मान 100% से बड़ा होता है, जब :

[1] $\sigma < \bar{X}$

[2] $\sigma > \bar{X}$

[3] $\sigma = \bar{X}$

[4] $\sigma \leq \bar{X}$

111. वर्ष 2021 में मानव विकास सूचकांक (HDI) में भारत का स्थान है :

[1] 130

[2] 132

[3] 128

[4] 134

112. आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, विश्व बैंक की 2019 में 'व्यापार करने में आसानी' रैंकिंग में भारत का स्थान है :

[1] 65

[2] 79

[3] 63

[4] 112

110. The value of coefficient of variation exceeds 100%, when :

[1] $\sigma < \bar{X}$

[2] $\sigma > \bar{X}$

[3] $\sigma = \bar{X}$

[4] $\sigma \leq \bar{X}$

111. India's Rank in Human Development Index (HDI) in year 2021 is :

[1] 130

[2] 132

[3] 128

[4] 134

112. According to Economic Survey 2019-20, India's position in World Bank's 'ease-of Doing Business' rankings, in 2019 is :

[1] 65

[2] 79

[3] 63

[4] 112

113. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही *नहीं* है ?

- [1] पूर्ण सहसम्बन्ध ± 1 होता है।
- [2] प्रसरण, प्रमाप विचलन का वर्ग होता है।
- [3] 'r' सार्थक होता है यदि यह प्रमाप विभ्रम का छः गुना से कम है।
- [4] माध्य विचलन, प्रमाप विचलन का $\frac{4}{5}$ होता है।

114. 50 पद-मूल्यों का प्रमाप विचलन 6.5 है। यदि प्रत्येक पद-मूल्य को 5 बढ़ा दिया जाए, तब प्रमाप विचलन होगा :

- [1] 11.5
- [2] 6.5
- [3] 1.5
- [4] 32.5

113. Which of the following statement is *incorrect* ?

- [1] Perfect correlation is ± 1 .
- [2] Variance is the square of standard deviation.
- [3] 'r' is significant if it is less than six times of standard error.
- [4] Mean deviation is $\frac{4}{5}$ of standard deviation.

114. The standard deviation of a set of 50 items is 6.5. If value of each item is increased by 5, then the standard deviation will be :

- [1] 11.5
- [2] 6.5
- [3] 1.5
- [4] 32.5

[A]

[34]

115. यदि एक आवृत्ति बंटन धनात्मक विषमता के लिए है, तो बंटन का माध्य होगा :

- [1] बहुलक से बड़ा
- [2] बहुलक से छोटा
- [3] बहुलक के बराबर
- [4] शून्य

116. चरम पदों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अपकिरण का माप है :

- [1] विस्तार
- [2] चतुर्थक विचलन
- [3] माध्य विचलन
- [4] प्रमाप विचलन

117. बाल लिंग-अनुपात की गणना के लिए संगत आयु समूह है :

- [1] 0-1 वर्ष
- [2] 0-4 वर्ष
- [3] 0-6 वर्ष
- [4] 0-7 वर्ष

115. If a frequency distribution is positively skewed, the mean of the distribution would be :

- [1] Greater than Mode
- [2] Smaller than Mode
- [3] Equal to Mode
- [4] Zero

116. Measure of dispersion which is affected most by extreme observations is :

- [1] Range
- [2] Quartile Deviation
- [3] Mean Deviation
- [4] Standard Deviation

117. The relevant age group for computation of child sex-ratio is :

- [1] 0-1 year
- [2] 0-4 years
- [3] 0-6 years
- [4] 0-7 years

118. निम्नलिखित में से कौन-सा घाटा इंगित करता है कि, ब्याज भुगतान के अलावा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए कितना सरकारी उधार लिया जा रहा है ?

- [1] प्राथमिक घाटा
- [2] राजकोषीय घाटा
- [3] राजस्व घाटा
- [4] बजट घाटा

119. निम्न में से कौन भारत में अधिकांश श्रमिकों के लिए रोजगार का मुख्य स्रोत है ?

- [1] द्वितीयक क्षेत्र
- [2] तृतीयक क्षेत्र
- [3] प्राथमिक क्षेत्र
- [4] सार्वजनिक क्षेत्र

120. यदि सह-विचरण $(x, y) < 0$ है, तब दोनों चरों के मध्य सम्बन्ध होता है :

- [1] धनात्मक
- [2] ऋणात्मक
- [3] पूर्ण धनात्मक
- [4] मौजूद नहीं

118. Which of the following deficit indicates, how much government borrowing is going to meet expenses other than interest payments ?

- [1] Primary deficit
- [2] Fiscal deficit
- [3] Revenue deficit
- [4] Budget deficit

119. Which of the following is the main source of employment for majority of workers in India ?

- [1] Secondary Sector
- [2] Tertiary Sector
- [3] Primary Sector
- [4] Public Sector

120. If covariance $(x, y) < 0$, then the relation between two variables is :

- [1] Positive
- [2] Negative
- [3] Perfect Positive
- [4] Do not exist

[A]

[36]

121. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन *असत्य* है ?

- [1] MPP, TPP में होने वाली वृद्धियाँ हैं।
- [2] सभी MPP का योगफल TPP होता है।
- [3] APP व रोजगार के स्तर का गुणनफल, TPP होता है।
- [4] TPP का रोजगार के स्तर से अनुपात, MPP होता है।

122. अल्प-रोजगार सन्तुलन का विचार समझाया गया है :

- [1] प्रतिष्ठित दृष्टिकोण में
- [2] केन्जीयन दृष्टिकोण में
- [3] पूर्व-केन्जीयन दृष्टिकोण में
- [4] उपरोक्त सभी में

123. निम्नलिखित में से कौन-सा एक साधन आय का घटक *नहीं* है ?

- [1] लगान
- [2] लाभ
- [3] मिश्रित आय
- [4] स्टॉक में परिवर्तन

121. Which of the following statement is *incorrect* ?

- [1] MPPs are additions to the TPP.
- [2] TPP is the sum of MPPs.
- [3] TPP is the multiplication of APP and the level of employment.
- [4] MPP is the ratio of TPP to the level of employment.

122. The idea of under-employment equilibrium is explained in the :

- [1] Classical Approach
- [2] Keynesian Approach
- [3] Pre-Keynesian Approach
- [4] All of the above

123. Which of the following is *not* a component of factor income ?

- [1] Rent
- [2] Profits
- [3] Mixed Income
- [4] Change in Stock

124. माँग सिद्धान्त के विकास में निम्नलिखित सिद्धान्तों के उदय को समय के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए :

- (i) प्रकट अधिमान
- (ii) न्यूनमन-मॉर्गेस्टर्न उपयोगिता सिद्धान्त
- (iii) क्रमवाचक उपयोगिता
- (iv) गणनात्मक उपयोगिता

- [1] iii, i, iv, ii [2] iv, iii, ii, i
[3] i, ii, iii, iv [4] iv, iii, i, ii

125. निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत, सीमान्त लागत के बराबर होती है ?

- [1] एकाधिकार
- [2] पूर्ण प्रतियोगिता
- [3] अल्पाधिकार
- [4] एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता

126. निम्नलिखित में से किस वक्र को एक साधन का माँग वक्र कहा जाता है ?

- [1] MPP वक्र [2] VMP वक्र
- [3] TPP वक्र [4] TVP वक्र

124. Starting from the earliest, arrange the following concepts in terms of their development in Demand Theory :

- (i) Revealed preference
- (ii) Neumann and Morgenstern utility theory
- (iii) Ordinal utility
- (iv) Cardinal utility

- [1] iii, i, iv, ii [2] iv, iii, ii, i
[3] i, ii, iii, iv [4] iv, iii, i, ii

125. In which of the following market structure price is equal to marginal cost ?

- [1] Monopoly
- [2] Perfect Competition
- [3] Oligopoly
- [4] Monopolistic Competition

126. Which of the following curve is the demand curve of a factor ?

- [1] MPP curve [2] VMP curve
- [3] TPP curve [4] TVP curve

[A]

[38]

127. यदि माँग है, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि, कुल व्यय को कमी की ओर ले जाती है।

- [1] बेलोचदार
- [2] लोचदार
- [3] इकाई के बराबर लोचदार
- [4] पूर्णतया बेलोचदार

128. निम्नलिखित में से कौन-सा एक अपूर्ण प्रतियोगी बाजारों का उदाहरण **नहीं** है ?

- [1] एकाधिकार
- [2] एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता
- [3] अल्पाधिकार
- [4] विशुद्ध प्रतियोगिता

129. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक, एक अल्पाधिकारी उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधित **नहीं** करेगा ?

- [1] वर्तमान फर्मों द्वारा भारी विज्ञापन व्यय
- [2] पैमाने की बचतें
- [3] तकनीक
- [4] माँग में वृद्धि

127. If demand is, an increase in the price of the product leads to a decrease in the total expenditure.

- [1] Inelastic
- [2] Elastic
- [3] Unit Elastic
- [4] Perfectly Inelastic

128. Which of the following is **not** an example of imperfectly competitive markets ?

- [1] Monopoly
- [2] Monopolistic Competition
- [3] Oligopoly
- [4] Pure Competition

129. Which of the following factors does **not** stall the entry of other firms in oligopolistic industry ?

- [1] Huge advertising expenditure incurred by existing firms
- [2] Economies of scale
- [3] Technology
- [4] Increase in demand

130. घटती सीमान्त अवसर लागत का तात्पर्य है :

- [1] नतोदर उत्पादन संभावना वक्र
- [2] उन्नतोदर उत्पादन संभावना वक्र
- [3] सीधी रेखा उत्पादन संभावना वक्र
- [4] लम्बवत् उत्पादन संभावना वक्र

131. एक सीधी रेखा धनात्मक ढाल वाला पूर्ति वक्र जो कीमत-अक्ष को काटता है, दर्शाता है :

- [1] $e_s = 1$
- [2] $e_s > 1$
- [3] $e_s < 1$
- [4] $e_s = 0$

132. प्रतिष्ठित अवधारणा में कीमत स्तर के सन्दर्भ में पूर्ति वक्र का आकार होता है :

- [1] पूर्णतया लोचदार
- [2] पूर्णतया बेलोचदार
- [3] अत्यधिक लोचदार
- [4] अत्यधिक बेलोचदार

130. Decreasing marginal opportunity cost implies :

- [1] Concave Production Possibility Curve
- [2] Convex Production Possibility Curve
- [3] Straight Line Production Possibility Curve
- [4] Vertical Production Possibility Curve

131. A straight line positively sloped supply curve which intersects the price-axis implies :

- [1] $e_s = 1$
- [2] $e_s > 1$
- [3] $e_s < 1$
- [4] $e_s = 0$

132. In the classical concept, the shape of the supply curve with respect to the price level is :

- [1] Perfectly Elastic
- [2] Perfectly Inelastic
- [3] Highly Elastic
- [4] Highly Inelastic

[A]

[40]

133. यदि $MPC = \frac{4}{5}$ है, तो गुणक का मूल्य होगा :

- [1] 4 [2] 5
[3] 2 [4] 10

134. किसने कहा कि "पूर्ति अपनी माँग स्वयं उत्पन्न करती है" ?

- [1] जे० पी० से
[2] जे० बी० से
[3] के० पी० से
[4] जे० एम० से

135. एक वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता के सन्तुलन को प्राप्त किया जाता है, जब :

- [1] $\frac{\text{मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{वस्तु की सीमान्त उपयोगिता}}$
= वस्तु की कीमत
- [2] $\frac{\text{वस्तु की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता}}$
= वस्तु की कीमत
- [3] $\frac{\text{वस्तु की कुल उपयोगिता}}{\text{मुद्रा की कुल उपयोगिता}}$
= उपभोक्ता की आय
- [4] $\frac{\text{वस्तु की कुल उपयोगिता}}{\text{मुद्रा की कुल उपयोगिता}}$
= वस्तु की कीमत

133. If MPC is $\frac{4}{5}$, then the value of multiplier will be equal to :

- [1] 4 [2] 5
[3] 2 [4] 10

134. Who states that "Supply creates its own demand" ?

- [1] J. P. Say
[2] J. B. Say
[3] K. P. Say
[4] J. M. Say

135. In case of consumption of one commodity, consumer's equilibrium is attained, when :

- [1] $\frac{\text{Marginal utility of Money}}{\text{Marginal utility of the Product}}$
= Price of the product
- [2] $\frac{\text{Marginal utility of the Product}}{\text{Marginal utility of Money}}$
= Price of the product
- [3] $\frac{\text{Total utility of the Product}}{\text{Total utility of Money}}$
= Income of the Consumer
- [4] $\frac{\text{Total utility of the Product}}{\text{Total utility of Money}}$
= Price of the product

136. उत्पादन में प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर किसी वस्तु का पूर्ति वक्र :

- [1] दायीं ओर विवर्तित होगा
- [2] बायीं ओर विवर्तित होगा
- [3] स्थिर रहेगा
- [4] पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर चलन होगा

137. बचत फलन का ढाल बराबर होता है :

- [1] $1 - MPC$ के
- [2] $1 - MPS$ के
- [3] $1 - APC$ के
- [4] $1 - APS$ के

136. Due to rise in the price of a substitute goods in production the supply curve of a goods :

- [1] Shifts to the right
- [2] Shifts to the left
- [3] Remains same
- [4] Upward movement takes place on supply curve

137. The slope of saving function is equal to :

- [1] $1 - MPC$
- [2] $1 - MPS$
- [3] $1 - APC$
- [4] $1 - APS$

[A]

[42]

138. निम्नलिखित में से कौन-सा एक किसी वस्तु के माँग वक्र पर चलन का कारण है ?

[1] उपभोक्ता की आय में परिवर्तन

[2] पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन

[3] प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन

[4] वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन

139. निम्नलिखित में से कौन-सा एक दृष्टिकोण राष्ट्रीय आय के मापन हेतु प्रयोग में *नहीं* लिया जाता है ?

[1] उत्पाद दृष्टिकोण

[2] रोजगार दृष्टिकोण

[3] आय दृष्टिकोण

[4] व्यय दृष्टिकोण

138. Which of the following causes a movement along a given demand curve for a goods ?

[1] Change in income of the Consumer

[2] Change in price of complementary goods

[3] Change in price of substitute goods

[4] Change in own price of the goods

139. Which of the following approach is *not* used for the measurement of National Income ?

[1] Product Approach

[2] Employment Approach

[3] Income Approach

[4] Expenditure Approach

140. अल्पकाल में सीमान्त लागत वक्र निम्न में से किन लागत वक्रों को उनके न्यूनतम बिन्दु पर काटता है ?

- [1] AFC तथा AVC
- [2] AVC तथा AC
- [3] AFC तथा AC
- [4] TC तथा AC

141. निम्नलिखित में से कौन-सी एक तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यता *नहीं* है ?

- [1] कमजोर अनुक्रम
- [2] स्थिर आय
- [3] मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता
- [4] उपयोगिता की क्रमसूचक प्रकृति

142. एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकालीन सन्तुलन को निम्नलिखित में से किन शर्तों के द्वारा व्यक्त किया जाता है ?

- [1] $MR = LMC$ तथा $P = LAC$
- [2] $MR > LMC$ तथा $P = LAC$
- [3] $MR = LMC$ तथा $P > LAC$
- [4] $MR > LMC$ तथा $P > LAC$

140. In the short-run marginal cost curve cuts which of the following curves at their minimum points ?

- [1] AFC and AVC
- [2] AVC and AC
- [3] AFC and AC
- [4] TC and AC

141. Which one of the following is *not* the assumption of indifference curve analysis ?

- [1] Weak ordering
- [2] Constant income
- [3] Constant MU of money
- [4] Ordinal nature of utility

142. The long run equilibrium in monopolistic competition is characterized by which of the following conditions ?

- [1] $MR = LMC$ and $P = LAC$
- [2] $MR > LMC$ and $P = LAC$
- [3] $MR = LMC$ and $P > LAC$
- [4] $MR > LMC$ and $P > LAC$

[A]

[44]

143. अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं की कुल माँग कहलाती है :

- [1] बाजार माँग
- [2] व्युत्पन्न माँग
- [3] समग्र माँग
- [4] प्रत्यक्ष माँग

144. सम-विच्छेद बिन्दु पर किसी अर्थव्यवस्था में APS का मूल्य बराबर होता है :

- [1] एक
- [2] शून्य
- [3] एक से कम
- [4] अनन्त

145. अर्थशास्त्र में निम्न में से किस अवधि को बाजार अवधि भी कहा जाता है ?

- [1] अति अल्पकाल
- [2] दीर्घकाल
- [3] अति दीर्घकाल
- [4] लागत काल

143. The total demand for goods and services in the economy is called :

- [1] Market Demand
- [2] Derived Demand
- [3] Aggregate Demand
- [4] Direct Demand

144. The value of APS in an economy at the break-even point is equal to :

- [1] One
- [2] Zero
- [3] Less than one
- [4] Infinity

145. Which of the following period is also known as market period in economics ?

- [1] Very Short Period
- [2] Long Period
- [3] Very Long Period
- [4] Cost Period

146. यदि सीमान्त कुशलता 10% है तथा ब्याज की दर 5% है, तो निवेश करना होगा :

- [1] लाभदायक
- [2] लाभहीन
- [3] स्वतन्त्र
- [4] स्वायत्त

147. निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऊपरी लागत का उदाहरण *नहीं* है ?

- [1] किराया लागतें
- [2] बीमा लागतें
- [3] कच्चे माल की लागतें
- [4] उपरोक्त में से कोई नहीं

148. सभी आगतों में 20% वृद्धि करने पर, उत्पादन में 10% के बराबर वृद्धि होती है। इस स्थिति को दर्शाया जाता है :

- [1] पैमाने के बढ़ते प्रतिफल द्वारा
- [2] पैमाने के स्थिर प्रतिफल द्वारा
- [3] पैमाने के घटते प्रतिफल द्वारा
- [4] परिवर्तनशील अनुपातों के नियम द्वारा

146. If Marginal Efficiency is 10% and the Rate of Interest is 5%, then the Investment is :

- [1] Profitable
- [2] Unprofitable
- [3] Independent
- [4] Autonomous

147. Which of the following is *not* an example of overhead costs ?

- [1] Rent costs
- [2] Insurance costs
- [3] Costs of raw material
- [4] None of the above

148. Due to 20% increase in all inputs, output is going to increase by 10%. This situation is illustrated by :

- [1] Increasing returns to scale
- [2] Constant returns to scale
- [3] Diminishing returns to scale
- [4] Law of variable proportions

[A]

[46]

149. एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के माँग वक्र के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र बराबर होता है :

- [1] सीमान्त आगम के
- [2] औसत आगम के
- [3] कुल आगम के
- [4] कुल लाभ के

150. सीमान्त उत्पादकता के मूल्य (VMP) को परिभाषित किया जाता है :

- [1] $P \times MPP$ द्वारा
- [2] $P \times TPP$ द्वारा
- [3] $P \times MRP$ द्वारा
- [4] $P \times TVP$ द्वारा

149. Area under the demand curve of a perfectly competitive firm is equal to the :

- [1] Marginal Revenue
- [2] Average Revenue
- [3] Total Revenue
- [4] Total Profit

150. Value of the Marginal Product (VMP) is defined as :

- [1] $P \times MPP$
- [2] $P \times TPP$
- [3] $P \times MRP$
- [4] $P \times TVP$

रफ कार्य के लिए (FOR ROUGH WORK)

PGTPrime.com

Telegram: t.me/pgtprime

6. प्रश्नों के उत्तर, उत्तर पत्रक में निर्धारित खानों को काले बॉल प्वाइंट पेन से पूर्णतया भरना है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

① ● ③ ④

आप द्वारा दिया गया उत्तर गलत माना जाएगा, यदि उत्तर वाले खाने को निम्न प्रकार से भरते हैं :

✓ ⊗ ● ◐

यदि एक से ज्यादा खानों को भर देते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा।

6. Answers to questions in answer sheet are to be given by darkening complete circle using Black ball point pen as shown below :

① ● ③ ④

The answer will be treated wrong, if it is marked, as given below :

✓ ⊗ ● ◐

If you fill more than one circle it will be treated as a wrong answer.

7. रफ कार्य प्रश्न-पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें। (Rough work should be done only in the space provided in the Question Booklet for the same.)
8. सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही अंकित करें। अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंजक (सफेद फ्ल्यूइड) का प्रयोग निषिद्ध है। (The answers are to be recorded on the OMR Answer Sheet only. Mark your responses carefully. Whitener (white fluid) is not allowed for changing answers.)
9. प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए चार विकल्पों में से उचित विकल्प के लिए OMR उत्तर पत्रक पर केवल एक वृत्त को ही पूरी तरह काले बॉल प्वाइंट पेन से भरें। एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। (Out of the four alternatives for each question, only one circle for the most appropriate answer is to be darkened completely with Black Ball Point Pen on the OMR Answer Sheet. The answer once marked is not allowed to be changed.)
10. अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्रक को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएँ। अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें। (The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray mark on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Answer Sheet.)
11. प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक के क्रमांक में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी प्रश्न पुस्तिका सैट उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। (Handle the Question Booklet and Answer Sheet with care, as under no circumstances (except for discrepancy in Question Booklet and Answer Sheet Serial No.), another set of Question Booklet will not be provided.)
12. प्रश्न-पुस्तिका/उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक को अभ्यर्थी सही तरीके से हस्ताक्षर चार्ट में लिखें। (The candidates should write the correct Number as given in the Question Booklet/Answer Sheet in the Signature Chart.)
13. अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के अतिरिक्त किसी प्रकार की पाठ्य-सामग्री, मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियाँ, पेजर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है। (Candidates are not allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, electronic device or any other material except the Admit Card and Identity Card inside the examination hall/room.)
14. पर्यवेक्षक द्वारा पूछे जाने पर प्रत्येक अभ्यर्थी अपना प्रवेश कार्ड (रोल नं०) और पहचान पत्र दिखाएँ। (Each candidate must show on demand his/her Admit Card (Roll No.) and identity card to the Invigilator.)
15. केन्द्र अधीक्षक या पर्यवेक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई अभ्यर्थी अपना स्थान न छोड़ें। (No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, should leave his/her seat.)
16. कार्यरत पर्यवेक्षक को अपना उत्तर पत्रक दिए बिना एवं हस्ताक्षर चार्ट पर दोबारा हस्ताक्षर किए बिना अभ्यर्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने दूसरी बार हस्ताक्षर चार्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्रक नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा। OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर सभी अभ्यर्थियों द्वारा बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगाया जाना है। अंगूठे का निशान लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्याही सही मात्रा में ही लगाई जाए अर्थात् स्याही की मात्रा न तो बहुत अधिक हो व न ही बहुत कम। (The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and signing the Signature Chart twice. Cases where a candidate has not signed the Signature Chart second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case. All candidates have to affix left hand thumb impression on the OMR answer sheet at the place specified which should be properly inked i.e. they should not be either over inked or dried in nature.)
17. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है। (Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.)
18. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए, अभ्यर्थी विवरणिका में दी गई प्रक्रिया/दिशा-निर्देश व बोर्ड के सभी नियमों एवं विनियमों का विशेष ध्यान रखें। अनुचित साधनों के सभी मामलों का फैसला बोर्ड के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा। (The candidates are governed by Guidelines/Procedure given in the Information Bulletin, all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.)
19. किसी हालत में प्रश्न-पुस्तिका और उत्तर पत्रक का कोई भाग अलग न करें। (No part of the Question Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.)
20. परीक्षा सम्पन्न होने पर, अभ्यर्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्रक कक्ष-पर्यवेक्षक को अवश्य सौंप दें। अभ्यर्थी अपने साथ इस प्रश्न-पुस्तिका को ले जा सकते हैं। (On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator in the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Question Booklet with them.)

| QN. | Ans. |
|-----|------|
| 001 | [2] |
| 002 | [3] |
| 003 | [2] |
| 004 | [1] |
| 005 | [4] |
| 006 | [3] |
| 007 | [2] |
| 008 | [2] |
| 009 | [1] |
| 010 | [1] |
| 011 | [3] |
| 012 | [1] |
| 013 | [3] |
| 014 | [2] |
| 015 | [4] |
| 016 | [4] |
| 017 | [1] |
| 018 | [3] |
| 019 | [3] |
| 020 | [3] |
| 021 | [*] |
| 022 | [1] |
| 023 | [1] |
| 024 | [4] |
| 025 | [4] |
| 026 | [2] |
| 027 | [1] |
| 028 | [4] |
| 029 | [2] |
| 030 | [3] |

| QN. | Ans. |
|-----|------|
| 031 | [2] |
| 032 | [1] |
| 033 | [2] |
| 034 | [3] |
| 035 | [3] |
| 036 | [2] |
| 037 | [4] |
| 038 | [4] |
| 039 | [2] |
| 040 | [4] |
| 041 | [2] |
| 042 | [1] |
| 043 | [4] |
| 044 | [1] |
| 045 | [3] |
| 046 | [3] |
| 047 | [1] |
| 048 | [4] |
| 049 | [1] |
| 050 | [2] |
| 051 | [1] |
| 052 | [1] |
| 053 | [3] |
| 054 | [2] |
| 055 | [4] |
| 056 | [3] |
| 057 | [1] |
| 058 | [4] |
| 059 | [2] |
| 060 | [*] |

| QN. | Ans. |
|-----|------|
| 061 | [1] |
| 062 | [4] |
| 063 | [2] |
| 064 | [4] |
| 065 | [1] |
| 066 | [4] |
| 067 | [2] |
| 068 | [3] |
| 069 | [4] |
| 070 | [3] |
| 071 | [4] |
| 072 | [1] |
| 073 | [3] |
| 074 | [3] |
| 075 | [2] |
| 076 | [2] |
| 077 | [3] |
| 078 | [3] |
| 079 | [2] |
| 080 | [2] |
| 081 | [1] |
| 082 | [3] |
| 083 | [4] |
| 084 | [4] |
| 085 | [3] |
| 086 | [2] |
| 087 | [1] |
| 088 | [4] |
| 089 | [3] |
| 090 | [3] |

| QN. | Ans. |
|-----|------|
| 091 | [3] |
| 092 | [3] |
| 093 | [2] |
| 094 | [2] |
| 095 | [2] |
| 096 | [1] |
| 097 | [1] |
| 098 | [1] |
| 099 | [2] |
| 100 | [4] |
| 101 | [4] |
| 102 | [4] |
| 103 | [3] |
| 104 | [1] |
| 105 | [4] |
| 106 | [4] |
| 107 | [2] |
| 108 | [4] |
| 109 | [4] |
| 110 | [2] |
| 111 | [2] |
| 112 | [3] |
| 113 | [3] |
| 114 | [2] |
| 115 | [1] |
| 116 | [1] |
| 117 | [3] |
| 118 | [1] |
| 119 | [3] |
| 120 | [2] |

| QN. | Ans. |
|-----|---------|
| 121 | [4] |
| 122 | [2] |
| 123 | [4] |
| 124 | [4] |
| 125 | [2] |
| 126 | [1 & 2] |
| 127 | [2] |
| 128 | [4] |
| 129 | [4] |
| 130 | [2] |
| 131 | [2] |
| 132 | [2] |
| 133 | [2] |
| 134 | [2] |
| 135 | [2] |
| 136 | [2] |
| 137 | [1] |
| 138 | [4] |
| 139 | [2] |
| 140 | [2] |
| 141 | [3] |
| 142 | [1] |
| 143 | [3] |
| 144 | [2] |
| 145 | [1] |
| 146 | [1] |
| 147 | [3] |
| 148 | [3] |
| 149 | [3] |
| 150 | [1] |